



आवेदन प्रक्रिया: शुरुआत से पंजीकरण तक के 10 कदम

1. आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी इकट्ठा करें: विशिष्ट कार्यक्रमों की अतिरिक्त आवश्यकताएं हो सकती हैं। कृपया सभी दिशा-निर्देशों को ठीक से पढ़ें।

वर्तमान में DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नामांकित

- विद्यार्थी आईडी नंबर (7 अंक) - रिपोर्ट कार्ड देखें
- माता - पिता का ईमेल पता

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नए हैं या वापस लौट रहे हैं

- माता - पिता का ईमेल पता
- आवास का सबूत – गैस, पानी, बिजली का बिल (अधिकतम 60 दिन पुराना), गिरवी/लीज़ अनुबंध
 - यदि माता-पिता के पास उक्त सूची अनुसार उनके नाम पर आवास का सबूत नहीं है, तो आवास का स्कूल चयन शपथ पत्र फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ पर स्थित हैं शपथ पत्र में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज़ लाएं। सूची में बताए दस्तावेज़ों के सिवाय अन्य कोई दस्तावेज़ जमा करने पर आवेदन अमान्य ठहरा दिया जाएगा।
- जन्म प्रमाणपत्र
- वर्तमान स्कूल वर्ष पतझड़ ऋतु सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड
- M.A.P. परीक्षा अंकों की आवश्यकता हाई अचीवर्स मैगनेट कार्यक्रम सीट के लिए केवल आवेदन करते समय होती है

2. रिसर्च स्कूल चयन प्रोग्राम और स्कूल - अपने बच्चे की सीखने की शैली, शक्ति और रुचियों के मुताबिक प्रोग्राम चुनें।

3. प्रोग्राम लॉटरी पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और लॉटरी पूल की समीक्षा करें।

<http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/>

4. परिवहन नीति पर विचार करें।

5. अपने प्रोग्राम और स्कूल चुनें।

6. <http://www.yourchoicedekalb.org> पर जाएं। आवेदन करने के लिए 'अभी आवेदन करें/साइन इन करें' टैब पर क्लिक करें।

DeKalb हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स और DeKalb एलीमेंटरी स्कूल ऑफ आर्ट्स के ऑडिशन आवेदकों को

- सबसे पहले: स्कूल चयन का आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा।
- उसके बाद: ऑडिशन का आवेदन वाला पैकेट सीधे स्कूल को मेल या डिलीवर करना होगा।

IB प्रेप (ग्रे. 9, 10) और IB डिप्लोमा (ग्रे. 11, 12) आवेदक जिनका संबंध Tucker हाई, Druid Hills हाई या MLK जूनियर हाई स्कूल से है उन्हें

- सबसे पहले: स्कूल चयन का आवेदन ऑनलाइन जमा करना चाहिए।
- उसके बाद: हर IB स्कूल में अलग से IB स्कूल आवेदन पृष्ठों को एक मेल में जमा करना चाहिए।



Arabia Mountain हाई स्कूल मैगनेट कार्यक्रम अतिरिक्त आवेदन और अनुशंसा को वीडियो साक्षात्कार प्रश्नावली फॉर्म में बताए अनुसार सीधे स्कूल में जमा किया जाना चाहिए।

DSA और DESA ऑडिशन, IB प्रेप या IB डिप्लोमा और Arabia Mtn HS डाउनलोड/संपादन योग्य आवेदन पेज

<http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/> पर उपलब्ध हैं

7. आवेदन की स्थिति अपडेट और सूचनाओं के लिए **अपने ईमेल इनबॉक्स और आवेदन डैशबोर्ड पर नज़र बनाए रखें।** नियमित रूप से ईमेल देखते रहना और आवेदन में लॉग इन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको कोई ईमेल नहीं मिला है, तो कृपया अपने ईमेल खाते के स्पैम या जंक फ़ोल्डर में देखें। स्थिति जैसी जानकारी **आवेदन डैशबोर्ड** के शीर्ष भाग पर मेसेज बॉक्स में भी पाई जा सकती है।
8. **लॉटरी वाले दिन (26 मार्च, 2021) को, अपने आवेदन में लॉगिन कर अपने परिणाम जांचें।** अपने ईमेल और स्कूल चॉइस डैशबोर्ड को नियमित रूप से देखते रहना आपकी ज़िम्मेदारी है।
9. अगर आवेदक को किसी प्रोग्राम के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, **तो चयन पत्र में दी गई समय सीमा तक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर 'स्वीकार करें' या 'अस्वीकार करें' चुनें।** चयन पत्र ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। सीट प्लेसमेंट ऑफ़र स्वीकार कर लेने के बाद, अन्य सभी विकल्पों को अस्वीकार कर दिया जाएगा क्योंकि एक विद्यार्थी को दो अलग-अलग स्कूलों या प्रोग्राम में नामांकित नहीं किया जा सकता।
10. समय सीमा के भीतर अपनी सीट स्वीकार करने के लिए **स्कूल में पंजीकरण करें।** प्रत्येक स्कूल की वेबसाइट पर अंतिम तारीख लिखी गई है। पहले दौर की लॉटरी के नतीजों के लिए पंजीकरण की समय सीमा पांच दिनों की है। **चयन पत्र में या स्कूल की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अंतिम तारीख तक स्कूल में पंजीकरण नहीं कराने वाले किसी भी आवेदक की सीट को जब्त/स्वतः अस्वीकृत किया जाता है और प्रतीक्षा सूची में क्रमबद्ध अगले प्रतीक्षा सूचीबद्ध आवेदक को दे दिया जाता है।** माता-पिता द्वारा किसी सीट को अस्वीकार कर दिए जाने या अपने आप अस्वीकृत हो जाने पर, सीट फिर से मिलना संभव नहीं है। स्कूल वेबसाइट पर पंजीकरण तारीख नहीं पाए जाने पर, माता-पिता की ज़िम्मेदारी होती है कि वे स्कूल में फोन कर तारीख का पता लगाएं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया स्कूल चयन वेबसाइट पर जाएं

<http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/>